

व्हीट वण्डर

व्हीट ग्रास पाउडर



व्हीट वण्डर का नित्य सेवन आपको रखता स्वस्थ – शरीर बनाता मजबूत

- व्हीट वण्डर में शरीर को स्वस्थ रखने वाले सभी नैसर्गिक तत्व जैसे विटामिन्स, मिनेरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, डाइटरी फाइबर्स इत्यादि मौजूद हैं जिससे शरीर की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है जो बिमारियों को दूर भगाते है ।
- व्हीट वण्डर का निर्माण पूर्णतया वैज्ञानिक एवं आधुनिक यंत्रों से हुआ है जिससे इसके सभी गुणकारी तत्व न केवल सुरक्षित हैं अपितु इसके खून में तुरन्त घुल जाने से शरीर की स्वास्थ्यवर्धक शक्ति (Stronger immune system) का विकास होता है ।
- व्हीट वण्डर के नित्य सेवन के लाभ का असर आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगता है- शरीर में नई उर्जा के संचार से हमेशा ताजगी का आभास रहता है ।
- व्हीट वण्डर 100 ग्राम पेक के मासिक सेवन से शरीर को करीब 23 किलों ताजी सब्जियों के बराबर स्वास्थ्यक खुराक मिलती है ऐसा माना गया है ।

व्हीट वण्डर शरीर के लिए निम्न लिखित फायदे प्रदान करने में सहायक है :-

- 1 बिमारियों से लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति (Immunity) बढ़ने से बिमारिया दूर भागती है ।
- 2 रक्त के शुद्धिकरण में सहायक है। यह मुंह की दुर्गन्ध व पसीने की बदबू रोकने में भी सहायक है ।
- 3 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (Redcells) बढ़ाने एवं होमोग्लोबिन बढ़ाने में भी सहायता करता है ।
- 4 अपनी क्षार प्रवृति से रक्त की पी-एच को सामान्य बनाने में सहायक है ।
- 5 पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने से एसीडीटी, अल्सर, पाईल्स इत्यादि रोग नहीं पनपते हैं ।
- 6 पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की सन्तानोत्पत्ति क्रिया बढ़ाने में सहायक है, जिससे सन्तान प्राप्त होने के आसार बनते हैं ।
- 7 त्वचा के सभी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है जिससे चेहरे की सुन्दरता व ताजगी बनी रहती है ।
- 8 व्हीट वण्डर पाउडर को दुध में मिलाकर लेप करने से त्वचा स्वस्थ व ताजी रहती है व मुंहासे, चेहरे के धब्बे, सुखापन इत्यादि मिटाने में भी सहायक है ।
- 9 व्हीट वण्डर में मौजूद डाइटरी फाइबर्स से खून में सुगर लेवल, कोलेस्टोरेल इत्यादि को सामान्य रखने व वजन घटाने में सहायक है ।

व्हीट वण्डर

व्हीट ग्रास पाउडर



निर्धारित नित्य सेवन की मात्रा

व्हीट वण्डर एक गिलास गुनगुना पानी में एक चम्मच (मात्रा करीब 3 ग्राम) लेकर अच्छी तरह घोले और सवेरे बिना कुछ खाए-पिए (Empty Stomach) पी लें। इसमें यदि एक चम्मच शहद मिला दें तो स्वाद बेहतर हो जाता है। यह प्रक्रिया एक माह तक करें ताकि इसके स्वास्थ्यवर्धक गुण आपको महसूस होने लगे।

- ✓ व्हीट वण्डर के सेवन के बाद आधे घण्टे तक कुछ न खाए।
- ✓ व्हीट वण्डर की शीशी में पूरे महिने की खुराक (100 ग्राम) है जिससे शरीर को इसके सभी पोषक तत्व मिलेंगे और वास्तविक असर भी दिखेगा।
- ✓ व्हीट वण्डर बड़ों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी यह पूर्णतया सुरक्षित है।
- ✓ व्हीट वण्डर का सेवन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो इसलिये - कृपया निम्न सुझावों पर ध्यान दें :

1. पहले पांच दिन - एक चम्मच अलसुबह
2. छः से दस दिन तक - एक-एक चम्मच सुबह एवं शाम
3. 11वें दिन के बाद - दो-दो चम्मच सुबह एवं शाम
4. व्हीट वण्डर का सेवन कम से कम 90 दिनों तक अथवा शरीर में वांछित लाभ महसूस होने तक लें।



नोट : व्हीट वण्डर के सेवन के साथ-साथ कृपया अच्छी खुराक खाएं जिसमें मुख्यतया हरी सब्जियां, सूप, अंकुरित अनाज, सलाद, फल-जूस इत्यादि हों।

व्हीट वण्डर के सेवन के दौरान कृपया तली हुई चीजों, मिठाइयों, तेज मसाले वाला खाना, शराब एवं मांसाहार इत्यादि का परहेज रखें।

MFGD., PACKED & MARKETED BY :
ALOE NATURALS

29(1), Light Industrial Area, Jodhpur (Rajasthan) INDIA
Customer Care # 0291 - 5107777 E-mail : info@aloenaturals.co.in

FSS Act, 2006 License
No. : 12212032000167

100%
ORGANIC